Ref: SEC/SE/2023-24 Date: July 18, 2023

To, Corporate Relations Department BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai- 400001

BSE Scrip Code: 500096



National Stock Exchange of India Ltd, Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, G Block Bandra – Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400051

NSE Scrip Symbol: DABUR

Sub: Publication of newspaper notice for loss of share certificates

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to enclose copies each of the Financial Express (English Daily) and Jansatta (Hindi Daily) both dated 18.07.2023 in which notice for intimation of loss of share certificates of the shareholders of the Company have been published.

Submitted for your kind information and records.

Thanking you,

Yours faithfully

For Dabur India Limited

(AK Jain)

EVP (Finance) and Company Secretary

Encl: as above

**FINANCIAL EXPRESS** 

### CANCELLATION OF E-AUCTION FOR CORE ASSETS (MANUFACTURING) ONLY OF PSL LIMITED-IN LIQUIDATION

This is in reference to the Sale Notice published on 04.07.2023\* for the e-auction of PSL Limited in Liquidation, to be held on 07.08.2022 in two options i.e., Option 1 & Option-II. This is to inform that the e-auction process for Option -I [core assets (manufacturing)] stands cancelled with immediate effect. All EMDs received for assets forming part of Block A to Block D under this process shall be returned to the respective bidder.

Particulars of the Asset	Block	Reserve Price (In Rs.)	Initial EMD Amount (In Rs.)	Incremental Value (In Rs.)
Core Assets - Option (Asset Sold on Collective basis				on 32(c)
Pipe Manufacturing Unit at Varsana, Gujarat - Land & Building, Plant & Machinery, Inventory and Consumables.	A	129.00 crores	12.90 crores	10.00 lakhs
Pipe Manufacturing Unit at Chengalpattu, TN - Land & Building, Plant & Machinery, Inventory and Consumables.	В	75.00 crores	7.50 crores	10.00 lakhs
Pipe Manufacturing Unit at Vishakhapatnam, AP - Land & Building, Plant & Machinery, Inventory and Consumables.	С	105.00 crores	10.05 crores	10.00 lakhs
Pipe Manufacturing Unit at Jaipur, Rajasthan - Land & Building, Plant & Machinery, Inventory and Consumables.	D	36.00 crores	3.60 crores	5.00 lakhs

#### The E-Auction Process for Block A to Block D stands cancelled.

Important Note: The e-auction process for non-core assets forming part of Option-II (Block E to Block O) will remain active and any buyer who has an interest in any of the non-core assets, shall refer to the e-auction process document for Option-II for the requisite timelines and detailed terms and condition.

For any query related to the cancellation of E-auction process for Option-1 i.e. Block A to Block D, you may visit to the website of AAA Insolvency Professionals LLP i.e. https://insolvencyandbankruptcy.in/public-announcement/psl-limited/.

Date: 17/07/2023 Nitin Jain
Place: New Delhi Liquidator in the matter PSL Limited
IBBI (Regn. No- IBBI/IPA-001/IP-P-01562/2019-2020/12462
Corp. Office Address: E-10A, Kailash Colony, G.K.I, New Delhi -110048
Liquidator Address: E-337, Ground Floor, G.K-1, New Delhi - 110048
Email: assetsale1@aaainsolvency.in, assetsale2@aaainsolvency.in, nitinjain@aaainsolvency.com

Contact Person: Mr. Puneet Sachdeva, Mr. Wasim & Mr. Rajkumar: - 8800865284



CIN: L24234KA1978PLC003417

Regd. Office: 20th KM, Hosur Road, Electronic City, Bengaluru - 560 100

Phone: +91-80-2808 2808; Fax: +91-80-2852 3423

E-mail: co.secretary@biocon.com; Website: www.biocon.com

#### NOTICE – 45TH ANNUAL GENERAL MEETING OF BIOCON LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE OR OTHER AUDIO-VISUAL MEANS AND REMOTE E-VOTING FACILITY AND FINAL DIVIDEND INFORMATION

Shareholders may note that the 45th Annual General Meeting ('AGM') of Biocon Limited ('the Company') will be held on Friday, August 11, 2023 at 3:30 P.M. (IST) through video conferencing ('VC') or other audio-visual means ('OAVM'), to transact the business as set forth in the 45th AGM Notice, in compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated December 28, 2022 ('MCA circulars') issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'), Government of India read with the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and all other applicable laws.

In compliance with the aforesaid MCA circulars and SEBI circulars dated May 12, 2020 and May 13, 2022 read with January 5, 2023, the Notice of 45th AGM along with the Annual Report for the FY 2022-23 will be sent only through electronic mode to those shareholders whose email IDs are registered with the Company/Depositories. Shareholders may note that the Notice of AGM along with the Annual Report will also be available on the website of the Company at www.biocon.com and websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of KFin Technologies Limited (KFintech) at https://evoting.kfintech.com/.

Shareholders may attend and participate in the AGM through the VC/OVAM facility only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Shareholders participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of Proxy will not be available for the AGM.

Shareholders may note that the Board of Directors in their meeting held on May 23, 2023, had recommended a final dividend of Rs. 1.50/- per equity share. The record date for the purpose of determining entitlement of shareholders for the final dividend for FY 2022-23 is Friday, July 07, 2023. The final dividend once approved by the shareholders in the ensuing AGM, will be paid on or before September 8, 2023, electronically through various online transfer modes to those shareholders who have updated their bank account details. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/demand drafts/cheques will be sent to their registered address.

Shareholders, who have not registered their email IDs / bank account details and / or other KYC details, are requested to follow the below procedure for registration of email ID to obtain the Annual report and updation of bank account details for the receipt of dividend:

Shareholders holding Register / update email id, bank account details and

other KYC details with your Depository Participant.

Shareholders holding shares in Physical mode	Register / update email id and other KYC details in Form ISR-1 and other relevant Forms with the RTA, KFin Technologies Limited.
	Shareholders may download the prescribed Forms from the Company's website at https://www.biocon.com/ investor-relations/shareholder-services/miscellaneous- communication/.
	Correspondence details of RTA are as follows:
	Address: KFin Technologies Limited (Unit: Biocon Limited), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Email id: einward_ris@kfintech.com

Alternatively, Members who wish to seek Annual report, Notice of AGM and the e-voting instructions for FY 2022-23 may send an e-mail request at einward.ris@kfintech.com along with scanned signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the provisions of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations, 2015) and in terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on "e-Voting facility provided by Listed Companies", the Company will be providing remote e-voting facility to all its shareholders holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, August 4, 2023 to cast their votes on all resolutions as set forth in the 45th AGM Notice. The manner of remote e-voting for shareholders holding shares in demat mode, physical mode and who have not registered their email IDs, will be provided in the 45th AGM Notice and the details will be also made available on the website of the Company at www.biocon.com.

The remote e-voting period will commence on Sunday, August 6, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Thursday, August 10, 2023 at 5:00 P.M. (IST) (both days inclusive). Voting through remote e-voting will not be permitted beyond 5:00 P.M. (IST) on Thursday, August 10, 2023. Facility for voting through electronic voting system will also be made available at AGM (Insta-Poll) through the e-voting services provided by KFintech.

Shareholders may note that as per the Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of the Members and the Company is required to deduct tax at source ('TDS') from dividend paid to the Members at rates prescribed in the Income Tax Act, 1961. Members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 at https://ris.kfintech.com/form15. The Company vide its e-mail communication dated Monday, July 10, 2023 had informed the Members regarding this change as per Income Tax Act, 1961 and relevant procedure to be adopted by the Members to avail the applicable tax rate. The said communication and draft of the exemption forms and other documents/formats are available on the Company's website at www.biocon.com.

In case of any query w.r.t. deduction of TDS on dividend, shareholders may write to einward.ris@kfintech.com and for any query pertaining to voting by electronic means, shareholders may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of https://evoting.kfintech.com (KFintech Website) or contact Mr. Suresh Babu (Unit: Biocon Limited) of KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or at einward.ris@kfintech.com or evoting@kfintech.com or phone no. 040 – 6716 2222 or call toll free No. 1800-309-4001 for any further clarifications.

For Biocon Limited
Sd/Mayank Verma

Date: July 17, 2023 Mayank Verma
Place: Bengaluru Company Secretary and Compliance Officer

financialexp.epap.in



[Reg off: No 302, Alpine Arch, No.10, Langford Road, Bengaluru-560027]

Web: www.alpinehousing.com, email Id: contact@alpinehousing.com
Fax No: 91 08022128357,Ph No: 91 080 40473500

TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND SUSPENSE ACCOUNT

Notice is published pursuant to the provisions of the Companies Act 2013 and Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit Transfer and Refund) Rules 2016 read with its amendment notified on 28 February 2017 and notification of 13th October 2017 and General circular No. 12/2017 dated October 16, 2017 issued by MCA (Referred to as 'IEPF Rules') The rules contain provisions for transfer of all shares to Investor education and Protection Fund ("IEPF") Suspense account, in

respect of which dividend declared by the company for the financial year 2015-16, which remains unclaimed by the shareholders for seven consecutive years or more, on the closure of the seventh year. The equity shares held by the shareholders who have not claimed the dividend for seven consecutive years from 2015-16 will be transferred to the IEPF Authority, subsequent to the transfer of the dividend amount according to the procedure set out under law.

Adhering to various requirements set out in the rules, the company has communicated individually to the concerned shareholders by mail and thereafter whose shares are liable to be transferred to the IEPF suspense account to claim their

to IEPF Suspense account on its website at www.alpinehousing.com. Shareholders are requested to refer to the website to verify the details of unclaimed dividends and shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

The concerned shareholder may note that the original share certificates which stand registered in their name will automatically stand cancelled and deemed not negotiable. The shareholder may further note that the details uploaded by the company on its

unpaid/unclaimed dividend amount's. The company has uploaded the details of such shareholders and shares due for transfer

website may be regarded as adequate notice in respect of issue of duplicate share certificates by the company for the purpose of transfer of shares to IEPF SUSPENSE ACCOUNT pursuant to the Rules.

In case the company does not receive any communication in this regard by 15 September 2023, the company shall transfer the shares of the shareholder to the IEPF by due date 30 September 2023, in adherence to the said rules. No claim shall lie against the company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to the IEPF pursuant to the Rules. The concerned

shareholder may note that upon such transfer, both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF suspense account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority, after following the procedure prescribed under the Rules.

For further information, concerned shareholder may contact the Registrar and Share Transfer Agent, M/s Cameo Corporate Services Limited, 'Subramanian Building', V Floor, No.1. Club House road, Chennai 600 002, Tel: 044-28461173, 28460290, e-mail

Services Limited, 'Subramanian Building', V Floor,No.1. Club House road, Chennai 600 002, Tel: 044-28461173, 28460290, e-mail sofia@cameoindia.com, nirmala@cameoindia.com, or may contact the company at the address/e-mail/telephone numbers mentioned above. The details of the Nodal Officer of the Company is also available on the website of the company.

Place: Bangalore

For Alpine Housing Development Corporation Limited

Date: 14.07.2023

Sd/-

Kurian Zacharias Company Secretary and Compliance Officer

# DABUR INDIA LIMITED CIN - L24230DL1975PLC007908 Regd. Office: 8/3. Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002 Tel. No. - 011-23253488, Fax No. - 011-23222051 Website - www.dabur.com; e-mail: investors@dabur.com NOTICE Notice is hereby given that the undermentioned share certificates of the Company have been reported to be lost or misplaced.

SI. No.	Folio Number	Shareholder Name	Certificate No.	Shares	Distinctive Nos
	0		72995	5000	35244541-35249540
			82116	1000	601823409-60182440
			82117	1000	601824409-60182540
1	DIL0048267	JAYSHREE DENISH KANJARIA	82118	1000	601825409-60182640
	JATSHINEE DENISH KANJANTA	82119	1000	601826409-60182740	
		82120	1000	601827409-60182840	
			88124	5000	605990718-60599571
			105880	15000	902815552-90283055
2	DIL0900338	BHADRESH H SHAH	73570	1000	35782291-35783290
3	DIL0902891	PALPU KAVULLATHIL RAVI	74458	1000	36677291-36678290
_			84680	1000	602331495-60233249
4	DIL0901183	KARL CHRISTOPHER BRUCE GOTTING	90696	1000	606439805-60644080
			108018	3000	907032611-90703561
_		RASHMI GABDA	93830	500	899208385-89920888
5	D1L0066785		8 8	3 54	
		RAMESH GABDA (DECEASED)	107787	500	906479716-90648021
6	DIL0903962	VINOD K KATARIA	60711	100*	28379951-28380050
7	DIL0904087	RAJNI BHATIA	60836	100*	28392451-28392550
.		DILIP KUMAR BHATIA			
8	D1L0904052	SUMANTA DAS GUPTA	85284	1000	602935495-60293649
9	DIL0904051	SABITA DAS GUPTA	85283	1000	602934495-60293549
10	DIL0904050	SUDIP DAS GUPTA	85282	1000	602933495-60293449
-	-	VIRJI HIRJI SHAH (DECEASED)	4	-	
11	D1L0036279	VANDANA SAVLA	25987	100*	24907551-24907650
_	-	SARLA BALI	86832	500	604740426-60474092
12	DIL0014037		04	0 1	
		INDER CHAND C	107027	500	904902369-90490286
13	D1L0050069	NAISHADH P DESAI	106382	1000	903805682-90380668
		MILIND H SHETH	J .		
			68603	1000	30426001-30427000
14	DIL0005764	DEVENDRA SHRIVASTAV	79971	1000	599745059-59974605
-	5120003704	DEVENDRA SHRIVASTAV	86387	1000	604319926-60432092
			106777	3000	904459864-90446286
		ROHIT BHAGAT	75023	1000	37242291-37243290
15	DIL0904330		85355	1000	603006495-60300749
		SHALINI M BHAGAT	91302	1000	607015305-60701630
_		MANOHAR TIKAMDAS WADHWANI			
16	D1L0903757	NEELAM MANORHAR WADHWANI	60506	100*	28359451-28359550
_		NEELAW WARNAN WADIIWAN	70960	1000	32786001-32787000
17	D1L0026730	ARUN KUMAR KANTI MOHANTY	81065	1000	600836159-60083715
			86173	1000	604121853-60412285
			107801	3000	906513616-90651661
		MAHENDRA N GANDHI	68897	1000	30720001-30721000
18	D1L0053283	NIRAJ M GANDHI	82338	1000	601982671-60198367
		MINE W CHILDIII	88290	1000	606115816-60611681
10	DITOGGGGG	LINAANSIIII IZ IOSIII	93325	500	898827065-89882756
19	D1L0066280	HIMANSHU K JOSHI	105727	500	902510197-90251069
	+	NARAYAN RAJAMBAL (DECEASED)	0	9 H	
20	D1L0025382	S A NARAYAN	29382	100*	25247051-25247150
-	0 3	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	93747	500	899129530-89913002
21	D1L0066702	UTTAM CHAND BOKADIA	107818	500	906559616-90656011
		CLIBAANI CLIADBAA			
22	DI10046700	SUMAN SHARMA	82052	1000	601768989-60176998
22	D1L0046798	PRAKASH SHARMA	88076	1000	605947798-60594879
			105390	3000	901877262-90188026
1	A		75336	2500	37664951-37667450
		000019 NATH SHAMBHU	85656	1000	603225625-60322662
,,	N0000019		85657	1000	603226625-60322762
23			85658	500	603227625-60322812
			91491	2500	607194374-60719687
				1	

\*shares of FV Rs. 10 each

1. Any person who has a claim or lien or interest in the above shares and having any objection to the issue of letter of confirmation towards issue of duplicate share certificates, in lieu of the above, is requested to notify the same to the Company at its Registered Office latest by 30.07.2023,indicating the nature of the claim, lien or interest of his/her

objection to the issue of said letter of confirmation, through an affidavit duly attested.
In case company does not receive any objection within aforesaid period it shall proceed with the issue of said Letter of Confirmation, in lieu of the above mentioned lost share certificates without entertaining any claim/damages

 The submission of documents by the members to the company shall be deemed to be completed on 30.07.2023 being last date of receipt of objection, if any, by the company on the above shares.

New Delhi 17.07.2023 For DABUR INDIA LIMITED (A K JAIN) E.V.P.(Finance) & Company Secretary

#### CANARA ROBECO

#### Canara Robeco Mutual Fund Investment Manager: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Construction House, 4th Floor, 5, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001. Tel.: 6658 5000 Fax: 6658 5012/13 www.canararobeco.com CIN No.: U65990MH1993PLC071003

#### NOTICE-CUM-ADDENDUM NO. 15

Introduction of One Time Bank Mandate (OTBM) Facility for investment in Schemes of Canara Robeco Mutual Fund:

Unit holders are requested to note that Canara Robeco Mutual Fund (CRMF) has decided to introduce One Time Bank Mandate (OTBM) facility which enables the investors to register a one-time bank mandate(s). Through this facility, Investors can authorize Canara Robeco Mutual Fund to honour any nature of investment instructions i.e., be it lumpsum, additional investment or periodic investments via Systematic Investment Plans etc. To avail this facility, Investors may furnish the required details by duly filling the "One Time Bank Mandate Form". It may be noted that for all subsequent purchase instructions, the investor is required to specifically mention to debit the investment amount from the Designated Bank which has been mentioned in the OTBM. Investors are requested to ensure that the amount specified in the Additional Purchase Application/SIP application is lower than or equal to the maximum amount limit specified in the OTBM form. It may also be noted that the said facility will be available for all schemes of CRMF and for all investor categories w.e.f. 18th July 2023. This facility can be availed by existing investors having a valid and KYC complied folio with CRMF. The investors can register OTBM facility with multiple banks within the same Folio. All other rules related to NAV applicability based on realization of application amount shall remain in force. It shall also be noted that the Maximum applicable OTBM amount shall be in accordance with the arrangement with the investor's bank. Pursuant to the above the necessary changes shall be carried out at relevant places in Scheme Information

Documents ("SID") or Key Information Memorandum ("KIM") of schemes of Canara Robeco Mutual Fund.

All the other provisions and terms and conditions of the Schemes of CRMF shall remain unchanged. This addendum shall form an integral part of the SID/KIM of the Schemes of the CRMF, as amended from time to time.

Unitholders are requested to visit www.canararobeco.com to claim their Unclaimed Redemption & Dividend/IDCW amounts and follow the procedure prescribed therein.

For and on behalf of Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
(Investment manager for Canara Robeco Mutual Fund)

Date: 17-07-2023 sd/Place: Mumbai Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

## Zensar An SAPE Company

#### Zensar Technologies Limited

Registered Office: Zensar Knowledge Park, Plot # 4, MIDC, Kharadi,
Off Nagar Road, Pune – 411014 Ph: 020-66057500 Fax No.: 020-66057888
E-mail: investor@zensar.com Website: www.zensar.com
CIN: L72200PN1963PLC012621

#### NOTICE

Notice is hereby given that the 60th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Zensar Technologies Limited ("the Company") will be held on Thursday, August 10, 2023, at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business(es), as set out in the Notice of AGM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), as amended, read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Securities and Exchange Board of India (SEBI) circular dated January 5, 2023 (hereinafter collectively referred to as Circular(s)).

In compliance with the aforesaid Circular(s), electronic copies of the Integrated Annual Report of the company for FY 2022-23 along with the Notice of AGM has been sent to all Members of the Company electronically, whose email addresses were registered with the Depository Participant(s) and/or the Company and/or the Register and Share Transfer Agent (RTA). These documents are also available on following website(s), at <a href="www.zensar.com">www.zensar.com</a>, NSDL: <a href="https://www.evoting.nsdl.com">https://www.evoting.nsdl.com</a>, BSE Limited: <a href="www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and National Stock Exchange of India Limited: <a href="www.nseindia.com">www.nseindia.com</a>.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations and the Secretarial Standards on General meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide to its Members, the facility to cast their votes electronically ("remote e-Voting") as well as e-Voting at AGM, through e-Voting services of National Securities Depository Limited (NSDL) at <a href="https://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> in respect of all the business(es) to be transacted at the AGM.

Key instructions for remote e-Voting and e-Voting during AGM:

- Members may attend the 60<sup>th</sup> AGM through VC/OAVM following the instructions as mentioned in the Notice.
- Detailed procedure and instructions for casting vote using e-Voting system of NSDL, by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses, forms part of the Notice.
- The business set forth in the Notice of the AGM may be transacted through remote e-Voting.
  The facility for voting through electronic means shall also be provided at the AGM. Those
  Members, who are present at the AGM through VC/OAVM facility and have not already cast
  their votes on the resolutions via remote e-Voting shall be eligible to vote through e-Voting
  system during the AGM. The Members, who have cast their vote by remote e-Voting prior to
  AGM, can attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again at
  the AGM.
- The voting right of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share
  capital of the Company as on Thursday, August 3, 2023 (cut-off date). Person(s) whose name is
  recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by
  Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting or eVoting at the AGM.
- The remote e-Voting period commences on Monday, August 7, 2023 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, August 9, 2023 at 5:00 p.m. (IST). During this period, Members may cast their votes electronically. The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL thereafter.
- Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is sent through e-mail and holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, August 3, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at <a href="evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> or Issuer/RTA. However, if you are already registered with NSDL for remote e-Voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password" option available on <a href="https://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> or call on: 022 4886 7000 and 022 2499 7000. In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as on the cut-off date may follow steps mentioned in the Notice of the AGM under "Access to NSDL e-Voting system".
- In case of any queries, please refer Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Soni Singh, Assistant Manager, NSDL at the designated e-mail ID: evoting@nsdl.co.in.

Members of the Company who have not registered/updated their email address can register/update the same as per the following procedure:

Physical Holding	Contact Company's RTA, KFin Technologies Limited by sending an email at <a href="mailto:einward.ris@kfintech.com">einward.ris@kfintech.com</a> along with request letter, Folio No., name of shareholder, and scanned copy of the share certificate (front and back), PAN Card (self-attested scanned copy) Aadhar Card (self-attested scanned copy), mobile number and email ID.
Demat Holding	Register/ update the details in your demat account, as per the process advised by your respective Depository Participant.

The Board of Directors appointed Sridhar Mudaliar (FCS 6156), and failing him, Ms. Sheetal Joshi (FCS 10480), Partners, SVD & Associates, Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the e-Voting process (remote e-voting before the meeting and e-voting during the meeting) in a fair and transparent manner.

Members may note that the Board of Directors of the Company at their Meeting held on May 11, 2023, has recommended a final dividend of INR 3.50 (175%) per equity share of INR 2 each for FY 2022-23. The Record Date for the said purpose has been fixed as Friday, July 21, 2023. The final dividend once approved, by the Members at the ensuing AGM, will be credited/dispatched within 30 days from the date of declaration to all Shareholders holding shares in physical or electronic mode as on the record date.

To encourage Green Initiative, Members are also requested to register their bank details with Company's RTA/the respective Depository Participant to receive the dividends, when declared by the Company, directly into their bank account through approved electronic mode of payment.

For Zensar Technologies Limited

Place: Pune Date: July 17, 2023 Sd/-Gaurav Tongia Company Secretary



New Delhi

सूर्यास्त- ०७:२०



18 जुलाई, 2023

### वजीराबाद जल शोधन संयंत्र का संचालन फिर से शुरू

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 17 जुलाई।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति के बीच बंद हुए वजीराबाद जल शोधन संयंत्र ने 54 एमजीडी शोधित जल का उत्पादन शुरू कर दिया है और वह जल्द ही अपनी पूर्ण क्षमता से काम शुरू करेगा।

इस संयंत्र की 134 एमजीडी (10 लाख गैलन प्रतिदिन) शोधित जल उत्पादित करने की क्षमता है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ह्यराष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ जैसी स्थिति के कारण वजीराबाद संयंत्र के उपकरण को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने लिखा, वजीराबाद जल शोधन संयंत्र की क्षमता 134 एमजीडी है। इसने 54 एमजीडी शोधित जल का उत्पादन शुरू कर दिया है। इस संयंत्र के उपकरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उम्मीद है कि यह जल्द ही पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगा। अभियंता चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।

## अब भी खतरे के निशान के ऊपर यम्ना, और बढ़ेगा जलस्तर

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 17 जुलाई।

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर सोमवार शाम छह बजे 205.94 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लूसी) के पूर्वानुमान के अनुसार नदी का जलस्तर 206.10 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। यमुना का जलस्तर सुबह नौ बजे 205.58 मीटर दर्ज किया गया था, जो शाम चार बजे बढ़कर 205.92 मीटर हो गया। यमुना के जलस्तर ने पिछले सप्ताह 207.49 मीटर के पुराने स्तर को तोड़ दिया था और यह 12 जुलाई को 208 मीटर के स्तर को पार कर गया था।

इससे पहले दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नदी के जलस्तर में कमी शुरू हो गई है और लोग जल्द ही राहत शिविरों से अपने घर लौट सकेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, ह्यजलस्तर नीचे जाने लगा है। अब लोग राहत



केंद्रीय जल आयोग के पूर्वानुमान के अनुसार नदी का जलस्तर 206.10 मीटर तक पहुंचने की आशंका है।

शिविरों से अपने घर वापस जा सकेंगे। हमें उनकी जिंदगी सामान्य करने में मदद करनी है। मेरी सबसे अपील है कि तन, मन, धन से लोगों की मदद करें। यह पुण्य का काम है। ह्न दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) ने लाल किले के पीछे की सड़क साफ कर दी है, जिसमें पानी भर गया था और यह जल्द ही यात्रियों के लिए खोल दी जाएगी।

आतिशी ने ट्वीट किया, ह्यमुझे यह बताते

हुए खुशी हो रही है कि पीडब्लूडी की रात भर की मेहनत से लाल किले के पीछे की सड़क से पानी साफ कर दिया गया है। अभी सिर्फ सड़क से कीचड़ साफ किया जा रहा है। कुछ समय में यह सड़क यातायात के लिए खुल जाएगी ह्ल मुख्यमंत्री ने राहत एवं बचाव प्रयासों में सहयोग के लिए पीडब्लूडी, दिल्ली जल बोर्ड, थल सेना, नौसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल , सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा अन्य सभी अधिकारियों का आभार भी जताया।

परिशिष्ट IV नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्) जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इंडियन बैंक (पूर्व में इलाहाबाद बैंक) चितरंजन

गर्क, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमारी चितरंजन पार्क शाखा के उधारकर्ता श्री पंकज गर्ग पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता और श्रीमती पल्लवी गर्ग पत्नी श्री पंकज गर्ग, निवासी भूतल, प्लॉट नं. 1/439, सैक्टर-1, वैशाली,

गाजियाबाद, यू.पी. को एक मांग सूचना दिनांक 02.05.2023 को जारी की गई थी जिसमें

सूचना में उल्लेखित राशि रु. 4,70,054.00 (रु. चार लाख सत्तर हजार चौवन मात्र)

दिनांक 01.05.2023 से अर्जित भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित उक्त सूचना की तिथि से

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदुद्वारा कर्जदार

तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने संपत्ति का कब्जा सुरक्षा

हित (प्रवर्तन) के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4)

के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक 15.07.2023 को कब्जा

विशेष रूप से कर्जदार तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियों के

साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन

देन इंडियन बैंक के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. 4,70,054.00 (रु. चार लाख सत्तर

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भृतल, प्लॉट नं, 1/439, सैक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, जिनका अलग से उल्लेख किया गया है: बिक्री विलेख बही नं. 1

जिल्द नं. 34616, पेज नंबर— 371—390, क्रमांक— 20932 दिनांक 07.12.2017 को पंजीकृत

हजार चौवन मात्र) दिनांक 02.05.2023 तक इत्यादि सहित के अधीन होगा।

60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

सी-405ए, चितरंजन पार्क, विपिन चंद्र पाल मार्ग, सीआर पार्क मार्केट-1, नई दिल्ली-110019

## स्कूली छात्र बिना किताब और वर्दी के कक्षा में हो सकते हैं शामिल

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 17 जुलाई।

तापमान

अधिकतम-34.0

न्यूनतम- 26.0

राजधानी में आई बाढ़ में अपनी पोशाक और किताबें खोने वाले छात्रों को इसके बिना कक्षाओं में तब तक शामिल होने की अनुमित दी जाएगी, जब तक कि उनके लिए स्कूल की वर्दी और नई किताबों की व्यवस्था नहीं हो जाती है।

शिक्षा निदेशालय के एक परिपत्र में कहा गया है कि सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देशित किया जाता है कि सभी बाढ़ प्रभावित छात्रों को हालिया बाढ़ में हुए

नुकसान से उबरने के लिए भावनात्मक और नैतिक समर्थन दिया जाए। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि जब तक पोशाक और नई पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक इन छात्रों को बिना वर्दी और पाठ्यपुस्तकों के भी स्कूल आने की अनुमति दी जाए।

दिल्ली सरकार के परिपत्र में कहा गया है कि राजधानी में आई बाढ़ के कारण यमना के किनारे रहने वाले कई परिवारों को काफी नुकसान हुआ है। कुछ परिवारों के घर का पूरा सामान बह गया। ऐसे कई बच्चे हैं, जिन्होंने बाढ़ में अपने कपड़े और किताबें खो दी हैं।

#### मंत्रियों ने बाढ़ पीड़ित राहत शिविरों का किया निरीक्षण

## सड़क पर जमी गाद हटाने और जल निकासी के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 17 जुलाई ।

दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों ने सोमवार को बाढ पीडित राहत शिविरों का दौरा कर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशानुसार खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने रिंग रोड स्थित मोनेस्ट्री मार्केट और सिविल लाइन क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया।

इसके साथ ही मध्य जिले में बाढ़ राहत शिविरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सडक पर जमी गाद और जल निकासी के अधिकारियों को निर्देश दिए। इमरान हुसैन ने एमसीडी और जल बोर्ड अधिकारियों को स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए जल निकासी और लेन सफाई की प्रक्रिया में तेजी लाने का

राष्ट्रपति मुर्मू ने

नटराज को किया

सम्मानित

सामुदायिक सेवा में उमदा

काम करने के लिए डाक्टर ए

नटराज को सम्मानित किया गया।

राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र

में आयोजित भारतीय रेड क्रास

सोसाइटी की वार्षिक आम सभा में

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने

डा ए नटराज को स्वर्ण पदक से

सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, रेड

क्रास की ओर से अजय मिश्र

(अध्यक्ष) सहित कई गणमान्य

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 17 जुलाई।

इमरान हुसैन ने निगम और जल बोर्ड के अधिकारियों को जल निकासी और लेन की सफाई की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिए।

निर्देश दिया सिविल लाइन क्षेत्र में दौरे के दौरान मंत्री ने देखा कि वहां से पानी कम होने के बाद कीचड और गाद गलियों में रुकी हुई है। मंत्री ने एमसीडी और डीजेबी के अधिकारियों को स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए जल निकासी और लेन की सफाई की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित करने के लिए स्कूल के शिक्षकों की सराहना की। पर्यावरण

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(मारत सरकार का उपक्रम)

जहाँ सेवा ही जीवन- ध्येय है

भूगतान करने के लिए कहा है।

पूर्व-9 मीटर चौड़ी सड़क,

उत्तर—प्लॉट नं. 63

दिनांक:17-07-2023

स्थानः जी.पी.एस. मेरठ

मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को राजघाट डिपो के पास बेलागांव स्थित राहत शिविर का अधिकारियों के साथ दौरा कर राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शिविर में साफ-सफाई और चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के विशेष निर्देश दिए। बाढ़ राहत शिविरों में रहने, खाने-पीने, शौचालय, सहित सभी जरूरी स्विधाएं स्निश्चित हो इसके निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।

राहत शिविरों का जायजा लेने के बाद गोपाल राय ने बताया कि बाढ़ के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा राहत शिविर पूरी दिल्ली में लगाए गए हैं। इन राहत शिविरों में लोगों के लिए रहने, भोजन, पानी, चिकित्सा व अन्य जरूरी सुविधाओं का प्रबंध किया गया है।

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

अधिकृत अधिकार्र

पंजाब एंड सिंध बैंक

यह सम्पत्ति श्री पंकज गर्ग पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता के पक्ष में है। दिनांक : 15.07.2023, स्थान : नई दिल्ली

सी-405ए, चितरंजन पार्क, बिपिन चंद्र Indian Bank पाल मार्ग, सीआर पार्क मार्केट-1, नई दिल्ली-110019

प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

परिशिष्ट IV नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्) जबकि अधोहरताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इंडियन बैंक (पूर्व में इलाहाबाद बैंक) चितरंजन पार्क, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमारी चितरंजन पार्क शाखा के उधारकर्ता **श्री पंकज गर्ग पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता और श्रीमती पल्लवी गर्ग पत्नी श्री पंकज गर्ग**, निवासी भूतल, प्लॉट नं. 1/439, सैक्टर–1, वैशाली, गाजियाबाद, यू.पी. को एक मांग सूचना दिनांक 02.05.2023 को जारी की गई थी जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 37,27,382.00 (रु. सैतीस लाख सत्ताईस हजार तीन सौ ब्यासी मात्र) दिनांक 01.05.2023 से अर्जित भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित उक्त सूचना

की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था। कर्जदार उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने संपत्ति का कब्जा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक 15.07.2023 को कब्जा

विशेष रूप से कर्जदार तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन इंडियन बैंक के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. 37,27,382.00 (रु. सैतीस लाख सत्ताईस हजार तीन सौ ब्यासी मात्र) दिनांक 02.05.2023 तक इत्यादि सहित के अधीन

अंचल सम्पत्ति का विवरण

प्तम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूतल, प्लॉट नं, 1/439, सैक्टर-1, वैशाली गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, जिनका अलग से उल्लेख किया गया है: बिक्री विलेख बही नं. 1 जिल्द नं. 34616, पेज नंबर— 371—390, क्रमांक— 20932 दिनांक 07.12.2017 को पंजीकृत यह सम्पत्ति श्री पंकज गर्ग पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता के पक्ष में है।

दिनांक : 15.07.2023, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

## CIN - L24230DL1975PLC007908 Regd, Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002 Tel. No. - 011-23253488, Fax No. - 011-23222051

Website - www.dabur.com; e-mail: investors@dabur.com

DABUR INDIA LIMITED

SI. No.	Folio Number	Shareholder Name	Certificate No.	Shares	Distinctive Nos
-	5		72995	5000	35244541-35249540
			82116	1000	601823409-60182440
			82117	1000	601824409-60182540
			82118	1000	601825409-60182640
1	DIL0048267	JAYSHREE DENISH KANJARIA	82119	1000	601826409-60182740
			82120	1000	601827409-6018284
		88124	5000	605990718-6059957	
			105880	15000	902815552-9028305
2	DIL0900338	BHADRESH H SHAH	73570	1000	35782291-3578329
3	DIL0902891	PALPU KAVULLATHIL RAVI	74458	1000	36677291-3667829
		84680	1000	602331495-6023324	
4	DIL0901183	KARL CHRISTOPHER BRUCE GOTTING	90696	1000	606439805-6064408
			108018	3000	907032611-9070356
	8	RASHMI GABDA	93830	500	899208385-8992088
5	DIL0066785	RAMESH GABDA (DECEASED)	107787	500	906479716-9064802
6	DIL0903962	VINOD K KATARIA	60711	100*	28379951-2838005
-	0	RAJNI BHATIA			
7	DIL0904087	DILIP KUMAR BHATIA	60836	100*	28392451-2839255
8	DIL0904052	SUMANTA DAS GUPTA	85284	1000	602935495-6029364
9	DIL0904051	SABITA DAS GUPTA	85283	1000	602934495-6029354
10	DIL0904050	SUDIP DAS GUPTA	85282	1000	602933495-6029344
-		VIRJI HIRJI SHAH (DECEASED)	+	-	
11	DIL0036279	VANDANA SAVLA	25987	100*	24907551-2490765
		SARLA BAI I	86832	500	604740426-6047409
12	DIL0014037	INDER CHAND C	107027	500	904902369-9049028
-		NAISHADH P DESAI	107027	500	30 1302303 30 13020
13	DIL0050069	MILIND H SHETH	106382	1000	903805682-9038066
-	-		68603	1000	30426001-3042700
			79971	1000	599745059-5997460
14	DIL0005764	DEVENDRA SHRIVASTAV	86387	1000	604319926-6043209
			106777	3000	904459864-9044628
-	-	ROHIT BHAGAT	75023	1000	37242291-3724329
15	DIL0904330		85355	1000	603006495-6030074
		SHALINI M BHAGAT	91302	1000	607015305-6070163
-	0 8	MANOHAR TIKAMDAS WADHWANI	31302	1000	007013303 0070103
16	DIL0903757	NEELAM MANORHAR WADHWANI	60506	100*	28359451-2835955
-	2 8	NEELAW WARNAM WASHWAM	70960	1000	32786001-3278700
			81065	1000	600836159-6008371
17	DIL0026730	ARUN KUMAR KANTI MOHANTY	86173	1000	604121853-6041228
			107801	3000	906513616-9065166
			10/801	3000	30720001-3072100
_		MAHENDRA N GANDUI	68807	1000	30/20001-30/2100
18	DI10053282	MAHENDRA N GANDHI	68897	1000	601092671 6010926
18	D1L0053283	MAHENDRA N GANDHI NIRAJ M GANDHI	82338	1000	
18	D1L0053283		82338 88290	1000	601982671-6019836 606115816-6061168 898827065-8988275
18	DIL0053283		82338 88290 93325	1000 1000 500	606115816-6061168 898827065-8988275
		NIRAJ M GANDHI HIMANSHU K JOSHI	82338 88290	1000	606115816-6061168 898827065-8988275
		NIRAJ M GANDHI HIMANSHU K JOSHI NARAYAN RAJAMBAL (DECEASED)	82338 88290 93325	1000 1000 500	606115816-6061168 898827065-8988275 902510197-9025106
19	D1L0066280	NIRAJ M GANDHI HIMANSHU K JOSHI	82338 88290 93325 105727 29382	1000 1000 500 500 100*	606115816-6061168 898827065-8988275 902510197-9025106 25247051-2524715
19	D1L0066280	NIRAJ M GANDHI HIMANSHU K JOSHI NARAYAN RAJAMBAL (DECEASED)	82338 88290 93325 105727 29382	1000 1000 500 500 100*	606115816-6061168 898827065-8988275 902510197-9025106 25247051-2524715 899129530-8991300
19	DIL0066280  DIL0025382	NIRAJ M GANDHI  HIMANSHU K JOSHI  NARAYAN RAJAMBAL (DECEASED)  S A NARAYAN  UTTAM CHAND BOKADIA	82338 88290 93325 105727 29382 93747 107818	1000 1000 500 500 100* 500	606115816-6061168 898827065-8988275 902510197-9025106 25247051-2524715 899129530-8991300 906559616-9065601
19 20 21	DIL0066280  DIL0025382  DIL0066702	NIRAJ M GANDHI  HIMANSHU K JOSHI  NARAYAN RAJAMBAL (DECEASED)  S A NARAYAN	82338 88290 93325 105727 29382 93747 107818 82052	1000 1000 500 500 100* 500 500 1000	606115816-6061168 898827065-8988275 902510197-9025106 25247051-2524715 899129530-8991300 906559616-9065601 601768989-6017699
19	DIL0066280  DIL0025382	NIRAJ M GANDHI  HIMANSHU K JOSHI  NARAYAN RAJAMBAL (DECEASED)  S A NARAYAN  UTTAM CHAND BOKADIA	82338 88290 93325 105727 29382 93747 107818 82052 88076	1000 1000 500 500 100* 500 500 1000	606115816-6061168 898827065-8988275 902510197-9025106 25247051-2524715 899129530-8991300 906559616-9065601 601768989-6017699 605947798-6059487
19 20 21	DIL0066280  DIL0025382  DIL0066702	NIRAJ M GANDHI  HIMANSHU K JOSHI  NARAYAN RAJAMBAL (DECEASED)  S A NARAYAN  UTTAM CHAND BOKADIA  SUMAN SHARMA	82338 88290 93325 105727 29382 93747 107818 82052 88076 105390	1000 1000 500 500 100* 500 500 1000 1000	606115816-6061168 898827065-8988275 902510197-9025106 25247051-2524715 899129530-8991300 906559616-9065601 601768989-6017699 605947798-6059487 901877262-9018802
19 20 21	DIL0066280  DIL0025382  DIL0066702	NIRAJ M GANDHI  HIMANSHU K JOSHI  NARAYAN RAJAMBAL (DECEASED)  S A NARAYAN  UTTAM CHAND BOKADIA  SUMAN SHARMA	82338 88290 93325 105727 29382 93747 107818 82052 88076 105390 75336	1000 1000 500 500 100* 500 500 1000 1000	606115816-6061168 898827065-8988275 902510197-9025106 25247051-2524715 899129530-8991300 906559616-9065601 601768989-6017699 605947798-6059487 901877262-9018802 37664951-3766745
19 20 21	DIL0066280  DIL0025382  DIL0066702	NIRAJ M GANDHI  HIMANSHU K JOSHI  NARAYAN RAJAMBAL (DECEASED)  S A NARAYAN  UTTAM CHAND BOKADIA  SUMAN SHARMA	82338 88290 93325 105727 29382 93747 107818 82052 88076 105390 75336 85656	1000 1000 500 500 100* 500 1000 1000 3000 2500 1000	606115816-6061168 898827065-8988275 902510197-9025106 25247051-2524715 899129530-8991300 906559616-9065601 601768989-6017699 605947798-6059487 901877262-9018802 37664951-3766745 603225625-6032266
19 20 21	DIL0066280  DIL0025382  DIL0066702	NIRAJ M GANDHI  HIMANSHU K JOSHI  NARAYAN RAJAMBAL (DECEASED)  S A NARAYAN  UTTAM CHAND BOKADIA  SUMAN SHARMA	82338 88290 93325 105727 29382 93747 107818 82052 88076 105390 75336 85656 85657	1000 1000 500 500 100* 500 1000 1000 100	606115816-6061168 898827065-8988275 902510197-9025106 25247051-2524715 899129530-8991300 906559616-9065601 601768989-6017699 605947798-6059487 901877262-9018802 37664951-3766745 603225625-6032276
19 20 21 22	DIL0066280  DIL0025382  DIL0066702  DIL0046798	NIRAJ M GANDHI  HIMANSHU K JOSHI  NARAYAN RAJAMBAL (DECEASED)  S A NARAYAN  UTTAM CHAND BOKADIA  SUMAN SHARMA  PRAKASH SHARMA	82338 88290 93325 105727 29382 93747 107818 82052 88076 105390 75336 85656	1000 1000 500 500 100* 500 1000 1000 3000 2500 1000	606115816-6061168 898827065-8988275 902510197-9025106 25247051-2524715 899129530-8991300 906559616-9065601 601768989-6017699 605947798-6059487 901877262-9018802 37664951-3766745 603225625-6032266

I. Any person who has a claim or lien or interest in the above shares and having any objection to the issue of letter confirmation towards issue of duplicate share certificates, in lieu of the above, is requested to notify the same to the Company at its Registered Office latest by 30.07.2023, indicating the nature of the claim, lien or interest of his/her

objection to the issue of said letter of confirmation, through an affidavit duly attested.

. In case company does not receive any objection within aforesaid period it shall proceed with the issue of said Letter of Confirmation, in lieu of the above mentioned lost share certificates without entertaining any claim/damage . The submission of documents by the members to the company shall be deemed to be completed on 30.07.2023 bein

last date of receipt of objection, if any, by the company on the above shares

For DABUR INDIA LIMITED (A K JAIN) E.V.P.(Finance) & Company Secretary

#### रिंग रोड पर वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू की गई

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 17 जुलाई।

लोग मौजूद थे।

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कम होने के बाद रिंग रोड पर वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है, जबिक कुछ प्रतिबंध अब भी लगे हुए हैं। यातायात पुलिस ने सोमवार को एक परामर्श जारी कर बताया कि रिंग रोड पर वजीराबाद फ्लाईओवर से होते हुए मजनूं का टीला से आइएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच दोनों ओर से मध्यम और हल्के वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है।

आइएसबीटी कश्मीरी गेट से सलीमगढ़ बाईपास होते हुए आइपी फ्लाईओवर तक दोनों ओर से मध्यम और हल्के वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। इसके अलावा, जलभराव के मद्देनजर, लोगों को सलाह दी गई है कि आइपी फ्लाईओवर से ठीक पहले वे विकास मार्ग की ओर बाईं ओर मुड़ें और आगे सराय काले खां की ओर जाने के लिए 'लूप' या 'यू–टर्न' लें।

## पीएफसी कंसिल्टंग लिमिटेड

शाखा कार्यालय:- गॉडविन पब्लिक स्कूल मेरठ, उत्तर प्रदेश

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002(2002 का 54) के तहत

अधोहस्ताक्षरी पंजाब एंड सिंध बैंक के अधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के

साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर दिनांक 09.05.2023 को मांग नोटिस जारी किया गया जिसमें

उधारकर्ता / गारंटर (II) श्री शिवराज सिंह तोमर पुत्र स्व. हिन्दराज सिंह (उधारकर्ता / बंधककर्ता) निवासी मकान नं. 126 / 6ए

गली नंबर 2, शिव शक्ति नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250002, (II) श्री भोजराज सिंह पुत्र स्व. हिन्दराज सिंह (गारंटर) निवासी मकान

नं. 126/6ए, गली नंबर 2, शिव शक्ति नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250002 एवं (III) श्री अशोक रंजन सिंह पुत्र स्व. राजेंद्र सिंह

वौहान (गारंटर) निवासी 321/322, सदर दाल मंडी, बुंदेला, सदर बाजार, मेरठ को नोटिस में उल्लिखित राशि 30.04.2023 वे

अनुसार रु 16,00,155.58 रुपये (सोलह लाख एक सौ पचपन) रुपये और अट्ठाईस) पैसा मात्र ) के साथ ही 01.05.2023 से ब्याज

और बैंक शुल्क, यदि कोई वसूली हुई होतो उसे घटाकर उक्त राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर

उधारकर्ता / गारंटर द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता / गारंटर और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस

देया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन न करे

और संपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन करने पर पंजाब एंड सिंध बैंक, गॉडविन पब्लिक स्कूल मेरठ को 30.04.2023 के अनुसार

५ १६,००,१५५.५८ (सोलह लाख एक सौ पचपन रुपये और अट्ठाईस पैसा मात्र ) के साथ ही ०१.०५.२०२३ से ब्याज और बैंक

प्रतिभृति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के

क्लैट नं. एसएफ–2 पर स्थित दूसरी मंजिल पर , बिना छत अधिकार के , प्लॉट नं. 62(पी) पर निर्मित , खसरा नंबर 2136/2, 2137/3, 2138/2

2139 / 3. 2140 / 3. 2142 / 2. 2143 / 2. 2136 एवं 2138. 2139 / 1. मी. , 2140 मी. 2143 मील. 2146 / 2. 2147 / 2. मी. 2148 और 2149 / 1. न

पश्चिम-दूसरों की संपत्ति

लिए निविदादाता नियमित रूप वेबसाइट देखते रहें। इस संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां निम्नानुसार है:

दक्षिण- दूसरों की संपत्ति

तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का 17 जुलाई 2023 को कब्जा ले लिया है।

शुल्क, यदि कोई वसूली हुई होतो उसे घटाकर उक्त राशि को के प्रभार के अधीन होगा।

तहत उधारकर्ता एवं गारंटरों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अधिसूचना तथा आरएफपी दस्तावेज देख सकते हैं।

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, "ऊर्जानिधि", 1, बाराखम्बा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फैक्स : 011-23443990

वैश्विक आमंत्रण (केवल ई-निविदा के माध्यम से) अन्तर-राज्यीय पारेषण परियोजना के लिए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और स्थानांतरण (BOOT) आधार पर टांसमिशन सेवा प्रदाता के चयन हेत्

पीएफसी कं सिट्टिंग लिमिटेड, पावर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी एकल चरण दो लिफाफा प्रक्रिया वाले "प्रस्ताव हेतु अनुरोध" (आरएफपी) का पालन करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और स्थानांतरण (BOOT) आधार पर ट्रांसिंगशन परियोजना की स्थापन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। इच्छ्क बोलीदाता वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com तथा https://www.pfcclindia.com पर उपलब्ध आरएफपी

निविदादाता अ—प्रतिदेय शुल्क रू. 5,00,000/— या यूएसडी (यूएस डॉलर) 7,000 + 18 प्रतिशत की दर से लागू जीएसटी का भुगतान करके आरएफपी दस्तावेज 18-07-2023 से निम्नलिखित परियोजना के लिए निविदा जमा करने से एक कार्यदिवस पूर्व तक सभी कार्यदिवसों में 10:30 बजे (आईएसटी) से 16:00 बजे (आईएसटी) के बीच 9वां तल, विंग - ए, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड़, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 91-11-23443996 ; फैक्स : 91-11-23443990, ई-मेल : pfccl.itp@pfcindia.com से प्राप्त कर सकते हैं। आरएफपी दस्तावेज https://www.mstcecommerce.com तथा https://www.pfcclindia.com से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं, यद्यपि, ऐसे मामले में, इच्छ्क पार्टियों को आरएफपी के उत्तर के साथ अलग से अ–प्रतिदेय शुल्क रू. 5,00,000 / – या युएसडी (यूएस डॉलर) 7,000 + 18 प्रतिशत की दर से लागू जीएसटी को जमा करके आरएफपी के उत्तर जमा कर सकते हैं। आरएफपी दस्तावेज के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं स्पष्टीकरण उन बोलीदाताओं को जारीं किये जायेंगे जिन्होंने उपरोक्त परियोजना हेतु आरएफपी को निविदा को जमा करने की तिथि से कम से कम एक कार्यदिवस पूर्व आवश्यक शुक्क का भुगतान कर आरएफपी दस्तावेज प्राप्त / खरीदा था। स्पष्टीकरण / संशोधन / समय विस्तार, यदि होगा, आदि के संबंध में स्वंय को अद्यतन रखने के

सम्प्रेषण स्कीम का नाम स्पष्टीकरण मांगने आरएफपी का प्रत्यत्तर आरएफपी का प्रत्युत्तर हेत् अंतिम तिथि प्रस्तुत करने हेत् खोलने की तिथि (तिथि/माह/वर्ष) (तिथि/माह/वर्ष) अंतिम तिथि (तिथि / माह / वर्ष) जोडा / बारबिल में संबंधित लाइनों 19/09/2023 को 19/09/2023 को 07/08/2023 के साथ 400/220/132 केवी 15:00 बजे (आईएसटी) 15:30 बजे (आईएसटी) ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण

नोट: पीएफसी कंसिल्टिंग लिमिटेड बिना कोई कारण बताए और बिना किसी दायित्व के निविदा प्रक्रिया को निरस्त या संशोधित करने का अधिकार रखता है। यह कोई प्रस्ताव नहीं है।



बोली प्रक्रिया समन्वयक CONSULTING LTD. (पीएफसी लिमिटेड की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

(भारत सरकार का उपक्रम)



कॉर्पोरेशन लिमिटेड

इंडियन बैंक **Indian Bank** ALLAHABAD 🧥 इलाहाबाद

एसएएम शाखा, प्रथम तल, 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष सं.: 011-40230166), ईमेल : armbdelhi@indianbank.co.in

''परिशिष्ट—IV—ए'' (नियम 8(6) का प्रावधान देखें) अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

**New Delhi** 

17.07.2023

एतदद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती–इलाहाबाद बैंक) के

पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका **सांकेतिक अधिग्रहण इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती—इलाहाबाद बैंक),** एसएएम शाखा दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, उसका विक्रय ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर 23–08–2023 को किया जायेगा, जो कि उधारकर्ता, गारंटरों तथा बंधककर्ताओं द्वारा इंडियन बैंक, एसएएम शाखा दिल्ली, प्रतिभूत ऋणदाता को देय बकाया राशि रु. 1,39,63,142/— (रुपये एक करोड़ उनतालिस लाख तिरेसठ हजार एक सौ बयालिस मात्र) (17-07-2023 के अनुसार) तथा इस राशि की वसूली होने तक इस पर नियत ब्याज एवं अन्य व्ययों को वसूल करने हेतू किया जायेगा। आरक्षित मूल्य का अंकन नीचे किया गया है तथा धरोहर राशि जो जमा की जानी है, वह भी क्रमशः नीचे अंकित है। र्द—नीलामी विधि के माध्यम से विकय हेत लाई जाने वाली संपत्ति के विशिष्ट विवरण निम्नानसार दिए गए हैं

इ—गालामा विविध के माध्यम से विक्रिय हेतु लोई जान वाला संवास्त के विविध विवरण निमानुसार विर् गर् हें							
ई—नीलामी 23—08—2023 को 11.00 बजे से 4.00 बजे तक, सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत होनी है							
उधारकर्ता(ओं) का नाम	गारंटर(रों) बंधककर्ता(ओं) / के नाम	अचल संपत्ति के विवरण	ऋणभार के विवरण, स्थानीय स्व शासन एवं शासकीय प्राधिकरणों, इत्यादि की बकाया राशियां, यदि कोई	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा	न्यूनतम वृद्धिशील राशि	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	
1. मैसर्स जे डी फ्लोर मिल (स्वामी श्री संजय डागर				₹. 64.00	₹.	₹.	
पुत्र स्वर्गीय महेंद्र सिंह डागर), वीपीओ, इस्सापुर,				लाख	6,40,000/-	1,00,000/-	
दक्षिण पश्चिम दिल्ली — 110073		का ) हिस्सा माप माप 200 वर्ग					
2. श्री संजय डागर पुत्र स्वर्गीय महेन्द्र सिंह डागर,	, (स्वामी, बंधककर्ता एवं गारंटर)	गज, दोनों भूखंड खसरा सं.					
वीपीओ इस्सापुर, दक्षिण पश्चिम	2. श्री अजय डागर पुत्र स्वर्गीय महेंद्र सिंह						
दिल्ली - 110073	डागर, वीपीओ	दक्षिण पश्चिम दिल्ली — 110043					
(स्वामी, बंधककर्ता एवं गारंटर)	इस्सापुर, दक्षिण पश्चिम दिल्ली — 110073	में स्थित है।					
	(बंधककर्ता एवं गारंटर)	(कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग गज)					
ई—नीलामी की तिथि एवं समय :- दिनांक 23-08-2023 को 11.00 बजे से 4.00 बजे तक 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ।							

न्यूनतम बोली वृद्धिशील राशि उपरांकित की गयी है।

अधिक जानकारी और नियमों व शर्तों के लिए संपर्क करें उप. महाप्रबंधक, एसएएम शाखा, प्रथम तल, 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन नंबर : 011-40230166, 9818966869 (सूश्री सोमी मेहरा, सहायक प्रबंधक)

दिनांक : 17-07-2023, स्थान : नई दिल्ली

अधिक जानकारी और नियमों व शर्तों को डाउनलोड करने के लिये, कृपया निम्न वेबसाइट देखें (i) https://www.tenders.gov.in (ii) www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index (iii) https://www.ibapi.in, (iv) https://www.indianbank.in

ईमेल : armbdelhi@indianbank.co.in बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन बोली में प्रतिभागिता करने के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लि. की वेबसाइट अर्थात् (www.mstcecommerce.com) देखें। तकनीकी सहायता के लिए कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क नं. 033.22901004 और सेवा प्रदाता हेल्प डेस्क पर उपलब्ध अन्य हेल्प लाइन नंबरों पर कॉल करें। एमएसटीसी लि. के साथ पंजीकरण स्थिति के लिए कृपया ibapiop@mstcecommerce.com पर तथा धराज स्थिति के लिए कृपया ibapifin@mstcecommerce.com पर संपर्क करें।

संपत्ति के विवरणों तथा संपत्ति के चित्र और नीलामी के नियमों व शर्तों के लिए कृपया https://ibapi.in पर जाएं और इस पोर्टल से संबंधित स्पष्टीकरणों के लिए कृपया हेल्प लाइन नंबर '18001025026'

तथा '011-41106131' पर संपर्क करें। बोलीदाताओं को सलाह है कि वे संपत्ति की खोज वेबसाइट https://ibapi.in एवं www.mstcecommerce.com पर करें।

प्राधिकृत अधिकारी